

परिशिष्ट III : अलग-अलग राज्यों की पूंजीगत प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

पद	त्रिपुरा				उत्तरांचल			
	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल प्राप्तियाँ (I से XIII)	459,713	409,449	701,600	669,252	2,778,826	946,326	970,155	1,325,089
कुल पूंजीगत प्राप्तियाँ (सार्वजनिक लेखा का निवल) *	74,981	40,725	73,956	71,668	223,072	229,378	253,270	275,347
I. बाह्य ऋण #	—	—	—	—	—	—	—	—
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	55,812	28,548	56,985	57,368	229,298	193,845	193,845	223,300
1. बाजार ऋण	25,089	9,425	13,700	10,368	30,884	28,845	28,845	53,800
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	2,183	3,000	—	3,000	—	5,000	5,000	—
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	—	3,000	3,000	3,000	11,442	17,500	17,500	17,500
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	—	—	—	—	1,424	1,200	1,200	2,500
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	8,613	—	—	—	88,744	30,000	30,000	30,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	19,927	12,623	40,285	41,000	96,804	110,000	110,000	117,000
8. अन्य @ जिसमें :	—	500	—	—	—	1,300	1,300	2,500
भूमि प्रतिकर और अन्य बांड	—	—	—	—	—	—	—	—
III. केंद्र से ऋण व अग्रिम (1 से 6)	9,516	2,000	—	—	14,688	21,987	21,987	4,955
1. राज्य योजना कार्यक्रम जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदान योजना सहायता अग्रिम	9,024	2,000	—	—	13,879	20,637	20,637	2,455
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	157	—	—	—	546	300	300	1,000
4. योजनेतर (i से ii)	—	—	—	—	263	1,050	1,050	1,500
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	—	—	—	—	—	—	—	—
(ii) अन्य	—	—	—	—	263	1,050	1,050	1,500
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	335	—	—	—	—	—	—	—
IV. ऋण और अग्रिम की वसूली (1 से 12)	397	300	300	304	8,709	6,040	6,040	17,965
1. आवास निर्माण	21	21	23	23	—	—	—	—
2. शहरी विकास	—	—	—	—	791	15	15	100
3. फसल उत्पादन	—	—	—	—	—	3,000	3,000	—
4. खाद्यान्न भंडारण और माल गोदाम	—	—	—	—	—	—	—	—
5. सहकारिता	3	7	3	3	15	25	25	45
6. लघु सिंचाई	—	—	—	—	—	—	—	—
7. बिजली परियोजना	—	—	—	—	6,938	2,419	2,419	6,700
8. ग्राम और लघु उद्योग	2	6	3	3	—	—	—	10,001
9. उद्योग और खनिज	—	—	—	—	—	—	—	—
10. सड़क परिवहन	—	—	—	—	—	—	—	—
11. सरकारी कर्मचारी आदि +	371	262	271	271	933	550	550	1,089
12. अन्य **	—	4	—	4	32	31	31	31
V. अंतर राज्य निपटान	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. आकस्मिकता निधि	—	—	—	—	2,406	—	790	4,000
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (निवल) (1+2)	44,411	41,466	46,214	47,400	29,984	26,097	32,093	36,661
1. राज्य भविष्य निधि	44,065	41,086	45,834	47,000	29,432	25,501	31,497	35,790
2. अन्य	346	380	380	400	552	596	596	871
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	1,301	1,000	1,025	1,100	29,044	10,200	16,200	33,500
1. मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	—	—	—	—	—	—	—	—
2. ऋणशोधन निधि	—	—	—	—	12,500	10,200	10,200	15,500
3. अकाल राहत निधि	—	—	—	—	—	—	—	—
4. अन्य	1,301	1,000	1,025	1,100	16,544	—	6,000	18,000
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	24,746	21,110	36,575	35,060	185,042	126,277	134,319	184,364
1. सिविल जमा	23,496	18,960	23,550	23,000	110,936	52,550	58,550	76,723
2. स्थानीय निधि जमाराशि	—	—	—	—	65,304	73,727	75,769	107,641
3. सिविल अग्रिम	1,250	2,150	13,025	12,060	8,801	—	—	—
4. अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—
X. उच्च और विविध (1 से 4)	263,256	245,025	510,500	483,020	2,102,137	423,830	426,831	618,791
1. उच्च	-2,406	5,000	3,050	3,000	-11,537	16,830	16,830	24,572
2. नकदी शेष निवेश खाता	265,663	240,000	507,430	480,000	300,334	—	—	—
3. भारिबैंक के पास नकदी शेष	—	—	—	—	1,369,218	—	—	—
4. अन्य	-1	25	20	20	444,122	407,000	410,001	594,219
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ जिसमें : विनिवेश	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII. विप्रेषण	60,273	70,000	50,000	45,000	177,518	138,050	138,050	201,553

परिशिष्ट III : अलग-अलग राज्यों की पूंजीगत प्राप्तियां (जारी)

(लाख रुपए)

पद	उत्तर प्रदेश				पश्चिम बंगाल			
	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल प्राप्तियाँ (I से XIII)	17,515,002	6,693,927	6,629,975	6,672,855	10,953,031	9,064,011	9,529,770	9,436,861
कुल पूंजीगत प्राप्तियाँ (सार्वजनिक लेखा का निवल)	2,177,448	1,626,581	1,485,127	1,534,476	1,514,996	1,662,916	1,943,751	1,676,341
I. बाह्य ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	3,484,790	2,011,439	2,217,881	2,342,942	2,738,325	1,755,672	1,478,353	1,667,585
1. बाजार ऋण	486,716	206,224	309,673	324,727	444,004	116,342	171,447	175,929
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	—	—	—	—	—	1,000	—	—
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	188,000	90,000	140,000	150,000	—	—	—	—
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	30,067	53,215	25,000	53,215	—	1,000	1,000	1,000
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	758	—	—	—	1,656	2,000	2,311	1,793
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	2,025,100	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,289,851	350,000	—	100,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	718,149	638,000	719,208	800,000	953,155	1,100,400	1,147,900	1,262,700
8. अन्य @ जिसमें : भूमि प्रतिकर और अन्य बांड	36,000	24,000	24,000	15,000	49,659	184,930	155,695	126,163
III. केंद्र से ऋण व अग्रिम (1 से 6)	284,087	435,060	40,265	57,872	163,948	260,228	64,571	103,673
1. राज्य योजना कार्यक्रम जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदान योजना सहायता अग्रिम	282,052	434,395	40,000	57,607	163,195	258,315	64,571	103,673
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	—	—	—	—	—	5	—	—
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	1,925	400	—	—	753	1,198	—	—
4. योजनेतर (i से ii) (i) प्राकृतिक आपदा राहत (ii) अन्य	110	265	265	265	—	710	—	—
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—	—
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. ऋण और अग्रिम की वसूली (1 से 12)	27,763	36,151	50,692	38,793	74,660	37,658	66,600	22,658
1. आवास निर्माण	-1,814	1,437	1,437	1,337	24	150	150	150
2. शहरी विकास	1,342	1,535	1,535	1,535	—	120	95	95
3. फसल उत्पादन	371	2,520	1,913	1,440	67	25	50	50
4. खाद्यान्न भंडारण और माल गोदाम	7	15	15	15	—	4	4	4
5. सहकारिता	2,143	968	968	968	261	250	275	275
6. लघु सिंचाई	—	—	—	—	2	7	7	7
7. बिजली परियोजना	—	100	100	100	29,440	29,409	58,351	14,409
8. ग्राम और लघु उद्योग	125	607	727	4,324	27	108	108	108
9. उद्योग और खनिज	13,081	15,272	15,272	14,656	39,795	1,230	1,205	1,205
10. सड़क परिवहन	—	49	49	49	—	200	200	200
11. सरकारी कर्मचारी आदि +	3,474	3,582	3,932	4,303	4,859	6,000	6,000	6,000
12. अन्य**	9,033	10,067	24,745	10,067	185	155	155	155
V. अंतर राज्य निपटान	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. आकस्मिकता निधि	7,569	—	21,200	—	—	—	401	—
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (निवल) (1+2)	322,560	372,473	453,515	405,236	114,204	123,472	126,508	138,859
1. राज्य भविष्य निधि	308,678	357,780	438,822	390,543	112,280	120,472	123,508	135,859
2. अन्य	13,882	14,693	14,693	14,693	1,924	3,000	3,000	3,000
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	271,029	348,813	311,431	339,848	64,248	72,265	53,030	56,899
1. मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	9,648	11,207	9,633	12,000	—	1	1	—
2. ऋणशोधन निधि	229,654	311,301	263,680	287,207	—	31,600	—	—
3. अकाल राहत निधि	—	—	—	—	—	5	—	—
4. अन्य	31,727	26,305	38,118	40,641	64,248	40,659	53,029	56,899
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	1,239,440	548,812	583,812	550,962	1,144,594	917,746	1,004,577	979,946
1. सिविल जमा	398,136	266,200	286,200	266,750	171,314	180,697	188,421	207,832
2. स्थानीय निधि जमाराशि	390,250	282,612	297,612	284,212	361,092	384,449	420,065	379,030
3. सिविल अग्रिम	9,217	—	—	—	16,051	16,126	16,511	17,016
4. अन्य	441,837	—	—	—	596,137	336,474	379,580	376,068
X. उचित और विविध (1 से 4)	11,368,235	2,691,179	2,701,179	2,685,702	6,466,567	5,656,132	6,519,408	6,230,189
1. उचित	-726,668	75,015	75,015	75,015	-3,552	6,329	384,152	8,980
2. नकदी शेष निवेश खाता	430,108	—	—	—	208,159	20,000	310,000	200,000
3. भारिबैंक के पास नकदी शेष	8,754,360	—	—	—	4,719,686	4,150,000	4,200,000	4,500,000
4. अन्य	2,910,435	2,616,164	2,626,164	2,610,687	1,542,274	1,479,803	1,625,256	1,521,209
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	—	—	—	—	—	—	—	—
जिसमें : विनिवेश	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII. विप्रेषण	509,529	250,000	250,000	251,500	186,486	240,837	216,323	237,053

परिशिष्ट III : अलग-अलग राज्यों की पूंजीगत प्राप्तियां (समाप्त)

(लाख रुपए)

पद	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली				सभी राज्य			
	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल प्राप्तियाँ (I से XIII)	453,930	244,730	477,089	18,732	117,871,192	72,518,742	105,999,728	90,233,309
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (सार्वजनिक लेखा का निवल) *	453,930	244,730	477,089	18,732	20,468,688	14,941,319	15,913,567	15,196,882
I. बाह्य ऋण #	-	-	-	-	-	-	-	-
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	373,238	224,517	435,622	-	22,148,862	15,222,817	15,868,933	15,066,850
1. बाजार ऋण	-	-	-	-	4,044,695	2,323,660	2,380,566	2,826,762
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	-	-	-	-	386,698	305,975	96,652	122,127
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	317,161	202,000	210,256	272,200
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	-	-	-	-	312,720	747,264	651,349	904,709
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	-	-	-	-	-95,462	54,764	82,079	70,045
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	7,233,528	4,823,590	3,367,990	3,688,172
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	373,238	224,517	435,622	-	8,743,062	6,049,409	8,426,287	6,481,509
8. अन्य @ जिसमें : भूमि प्रतिकर और अन्य बांड	-	-	-	-	1,206,459	716,155	653,754	701,326
III. केंद्र से ऋण व अग्रिम (1 से 6)	27,897	-	-	-	2,615,741	3,121,614	1,091,132	1,352,512
1. राज्य योजना कार्यक्रम जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदान योजना सहायता अग्रिम	27,897	-	-	-	2,290,618	2,977,038	1,013,508	1,280,888
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-123	-123	-
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	-	-	-	-	17,141	8,619	9,267	6,363
4. योजनेतर (i से ii) (i) प्राकृतिक आपदा राहत (ii) अन्य	-	-	-	-	63,830	41,417	10,455	11,334
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	80,773	14,208	3,304	3,482
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	-	-	-	-	80,773	14,208	3,304	3,482
IV. ऋण और अग्रिम की वसूली (1 से 12)	52,795	20,213	41,467	18,732	856,749	550,506	745,884	551,313
1. आवास निर्माण	-	-	-	-	5,499	85,799	34,968	59,576
2. शहरी विकास	-	-	-	-	15,689	8,097	9,377	8,896
3. फसल उत्पादन	-	-	-	-	2,912	7,197	7,721	2,437
4. खाद्यान्न भंडारण और माल गोदाम	-	-	-	-	1,180	2,017	20,600	31,737
5. सहकारिता	-	-	-	-	77,605	19,424	24,674	62,953
6. लघु सिंचाई	-	-	-	-	10	8,559	19	8,518
7. बिजली परियोजना	-	-	-	-	438,883	171,371	377,428	85,304
8. ग्राम और लघु उद्योग	-	-	-	-	9,655	11,933	12,409	26,823
9. उद्योग और खनिज	-	-	-	-	74,807	25,545	34,056	34,682
10. सड़क परिवहन	-	-	-	-	-	249	249	8,249
11. सरकारी कर्मचारी आदि +	607	700	600	600	94,045	98,868	104,746	108,774
12. अन्य **	52,188	19,513	40,867	18,132	136,466	111,447	119,638	113,365
V. अंतर राज्य निपटान	-	-	-	-	-	2	2	2
VI. आकस्मिकता निधि	-	-	-	-	109,060	64,610	95,265	70,272
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (निवल) (1+2)	-	-	-	-	3,380,032	3,930,543	3,851,177	4,037,188
1. राज्य भविष्य निधि	-	-	-	-	2,470,578	2,842,601	2,830,720	2,973,286
2. अन्य	-	-	-	-	909,453	1,087,942	1,020,457	1,063,902
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	-	-	-	-	1,857,060	1,696,771	2,466,927	2,240,535
1. मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	-	-	-	-	17,385	25,832	22,119	25,084
2. ऋणशोधन निधि	-	-	-	-	451,842	614,673	861,952	842,218
3. अकाल राहत निधि	-	-	-	-	40	94	79	79
4. अन्य	-	-	-	-	1,387,794	1,056,171	1,582,777	1,373,154
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	-	-	-	14,519,503	11,538,647	12,494,761	13,042,895
1. सिविल जमा	-	-	-	-	4,213,628	3,317,417	3,805,878	3,681,876
2. स्थानीय निधि जमाराशि	-	-	-	-	6,803,455	6,172,820	6,432,966	6,763,882
3. सिविल अग्रिम	-	-	-	-	271,028	241,829	241,232	253,814
4. अन्य	-	-	-	-	3,231,390	1,806,582	2,014,685	2,343,323
X. उच्च और विविध (1 से 4)	-	-	-	-	65,450,213	30,908,515	64,092,702	48,300,513
1. उच्च	-	-	-	-	98,993	1,237,654	3,186,833	2,801,951
2. नकदी शेष निवेश खाता	-	-	-	-	27,486,549	6,065,902	26,975,544	14,437,462
3. भारिबैंक के पास नकदी शेष	-	-	-	-	23,357,150	10,227,631	18,894,692	18,867,572
4. अन्य	-	-	-	-	14,507,520	13,377,328	15,035,634	12,193,527
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	-	-	-	-	30,000	-	-	600
XII. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	-	-	-	-	592	-	60,130	305,000
जिसमें : विनिवेश	-	-	-	-	-	-	-	100,000
XIII. विप्रेषण	-	-	-	-	6,903,379	5,484,716	5,232,815	5,265,631

परिशिष्ट III की टिप्पणी :

1. 'लोक लेखा' सहित सभी आंकड़ें सकल आधार पर हैं और भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट और भारिबैंक के पास नकदी शेष निवेश खाता और जमाराशियां भी क्रमशः 'आंतरिक ऋण और उच्चत और विविध' में शामिल की गई हैं। इसप्रकार यह पिछले वर्ष के निवल आधार वाले 'लोक लेखा' से तुलनीय नहीं है तथा भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट तथा भारिबैंक के पास नकदी शेष निवेश खाता और जमाराशियों को भी संबंधित शीर्ष में नहीं रखा गया था।
 2. वर्ष 2003-04 (लेखा) के लिए पर लोक लेखा (निवल) आधारित तुलनीय आंकड़े विवरण 32 में दिए गए हैं।
 3. उपसमूह 'लघु बचत, भविष्य निधि, आदि', 'प्रारक्षित निधि', 'जमा और अग्रिम' 'उच्चत और विविध' और 'विप्रेषण', 'लोक लेखा' से संबंधित है।
 4. जहाँ किसी प्रमुख समूह के किसी एक या कई उप-समूह के ब्योरे उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ संबंधित राशि 'अन्य' उपसमूह के सामने दर्शाई गई है।
 5. 'केंद्र से अनुदान' के मामले में जहाँ 'राज्य योजना कार्यक्रम', 'केंद्रीय योजना कार्यक्रम', 'केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम' और 'गैर-योजना अनुदान' संबंधी ब्योरे उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ संबंधित राशि 'राज्य योजना कार्यक्रम' के सामने दर्शाई गई है। इसी तरह जहाँ 'केंद्रीय योजना कार्यक्रम' और 'केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम' के ब्योरे उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ संबंधित राशि 'केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम' के सामने दर्शाई गई है।
 6. वर्ष 2003-04 के लिए जम्मू और काश्मीर, झारखंड के आंकड़ों संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।
 7. पिछले अध्ययन में बिहार के 2005-06 (बजट अनुमान) के आंकड़े लेखानुदान के आधार पर हैं। इसलिए, बिहार से संबंधित 2005-06 (बजट अनुमान) के आंकड़े बजट 2006-07 के आधार पर संशोधित हैं। तदनुसार "सभी राज्य" के 2005-06 (बजट अनुमान) के सभी आंकड़े पिछले वर्ष प्रकाशित आंकड़ों से भिन्न होंगे।
 8. सभी आंकड़े पूर्णांकित हैं।
- * इसमें मद I से XIII का जोड़ शामिल है जहां मद V से XI, XIII तथा II(3) निवल आधारपर हैं, जबकि मद II (6) तथा X (2 व 3) शामिल नहीं हैं। मद II (6) तथा X (2 व 3) शामिल नहीं हैं। मद II (6) तथा X (2 व 3) को समग्र अधिशेष/घाटे के लिए वित्तीय मदों के रूप में लिया गया है।
- # भारतीय संविधान के अनुसार राज्य सीधे बाहरी एजेंसियों से संसाधन नहीं जुटा सकते ।
- @ भूमि प्रतिकर बांड, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सी.डब्ल्यू.सी. आदि से ऋण शामिल हैं।
- + आवास व्यवस्था, वाहन क्रय, त्यौहार, विवाह आदि के लिए सरकारी कर्मचारियों को दिए गए ऋण और अग्रिम की वसूली शामिल हैं।
- ** इसमें शिक्षा, कला और संस्कृति, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, मत्स्यपालन और पशुपालन आदि के लिए दिए गए ऋण और अग्रिम की वसूली शामिल हैं।
- शून्य / नगण्य / अनुपलब्ध।